

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इकोस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदेश मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

पंचायत निर्वाचन, सिवनी मालवा
सेक्टर अधिकारी की सूची

क्रमांक (1)	सेक्टर ऑफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नंबर (3)
1	श्री शिवनाथ पटेल, जिला खनिज अधिकारी, होशंगाबाद	9425140229
2	श्री जे. एल. कास्दे, ए.डी.ए., कृषि उप संचालक कृषि, होशंगाबाद	7049896244
3	श्री डी. पी. तिवारी, एस.डी.ओ., सिंचाई तथा परियोजना, सिवनीमालवा	9425635737
4	श्री नीरज भारती, रेशम निरीक्षक, सिवनीमालवा	9753343404
5	श्री एम. पी. गोस्वामी, जिला प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, होशंगाबाद	9827323423
6	श्री बी. के. पाण्डे, एस.डी.ओ., आर.ई.एस., सिवनीमालवा	9826614457
7	श्री निशान्त पटेल, खण्ड पशु चिकित्सा अधिकारी, सिवनीमालवा	9575826019
8	श्री अनिल शर्मा, सहायक यंत्री, मनरेगा जनपद पंचायत, सिवनीमालवा	9425084909

(1)	(2)	(3)
9	श्री किशोर शर्मा, कार्यपालन यंत्री, तबा परियोजना, सिवनीमालवा	9424410214
10	श्री मोजीलाल पाराशर, एस.डी.ओ., सिंचाई तबा परियोजना, सिवनीमालवा	9425358296
11	श्री योहन कटारा, एस.डी.ओ. वन, वनविभाग, सिवनीमालवा	9424792069
12	श्री आर. एल. जैन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिवनीमालवा	8109949697
13	श्री आई. एस. मनचंदा, बीज निरीक्षक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, सिवनीमालवा	9301190371
14	श्रीमती सुकृति ओसवाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बनापुरा	9424792079
15	डॉ. ए. बी. खान, जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, होशंगाबाद	9425005587
16	श्री सुनील नाथ, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, होशंगाबाद	9425483225
17	श्री हेमन्त मुके, एस.डी.ओ., सिंचाई तबा नहर उप संभाग, डोलरिया	9926315835
18	श्री जगदीशकुमार सारस्वत, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, होशंगाबाद	9425655554
19	श्री ए. के. चौरे, प्रभारी एस.डी.ओ. पी.इ.च.ई., लोक स्वा. यांत्रिकी सेवा, सिवनीमालवा	9009069505
20	श्री धरमपुरी गोस्वामी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिवनीमालवा	9424792070
21	श्री ए. बी. गुप्ता, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, होशंगाबाद	9425648843
22	श्री पी. सी. साहू, एस.डी.ओ., सिंचाई तबा परियोजना, सिवनीमालवा	9754871529
23	श्री हरभजन सिंह, प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, होशंगाबाद	7697324331
24	श्री सुधीर निगम, प्राचार्य, आई.टी.आई., होशंगाबाद	9424411309
25	श्री एल. के. शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिवनीमालवा	9752775893

**पंचायत निर्वाचन, केसला
सेक्टर अधिकारी की सूची**

क्रमांक (1)	सेक्टर ऑफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नंबर (3)
1	डॉ. व्ही. के. नारखेडे, वरि. पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय, कालाआखर	9406545384
2	श्री नवलकिंशोर चौहान, रेन्जर वन विभाग बोरी अभ्यारण्य, इटारसी	9424792032
3	श्री ए. एल. मरापे, रेन्जर वन विभाग (सामान्य), इटारसी	9424792032
4	श्री एच. के. पटेल, रेन्जर वन विभाग, कालाआखर	9893389537
5	श्री योगेन्द्र शर्मा, वरि. कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग, केसला	9826816039
6	श्री योगेश घाघरे, परि. अधिकारी आई.सी.डी.एस., केसला	9826748422
7	श्री ए. के. यादव, अनुविभागीय अधिकारी तबा परियोजना, इटारसी	9424483070
8	श्री अशोक जाटव, अ.वि.अ. तबा परियोजना संभाग, इटारसी	9425774019
9	डॉ. सुनील चौधरी, पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय, केसला	7724991485
10	श्री डी. आर. इवने, अनु. अधि. ग्रा. यां. सेवा, केसला	9926981607
11	श्री व्ही. एल. गुप्ता, सहा. यंत्री, तबा परियोजना संभाग, इटारसी	9827383802
12	डॉ. कमलसिंह, पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय, केसला	9893270026

(1)	(2)	(3)
13	ડૉ. શૈલેન્ડ્ર નેમા, પણુ ચિકિ. સહા. શલ્વજ્ઞ, પણુ ચિકિત્સાલય, ઇટારસી	9425635443
14	શ્રી પ્રકાશ કાકડે, અ.વિ.અ. તવા પરિયોજના ઉપ નહર તવા સંભાગ, ઇટારસી	9755215667
15	શ્રીમતી આશા મોર્ય, બી.ઇ.ଓ. કાર્યા. જનપદ શિક્ષા કેન્દ્ર, કેસલા	9827541784
16	શ્રી રાજેશ સંતોરે, સહા. યંત્રી તવા પરિયોજના સંભાગ, ઇટારસી	9893803635
17	શ્રી દીપક વાસવાની, કૃષિ યંત્રી અધિકારી કૃષિ યાંત્રિકી, ઇટારસી	9827455344
18	શ્રી કે. કે. શર્મા, બી.આર.સી. કાર્યાલય વિકાસખણ શ્રોત સમન્વયક, કેસલા	9617627550
19	શ્રી સી. બી. જૈન, વાણિજ્ય કર અધિકારી વાણિજ્ય કર કાર્યાલય, ઇટારસી	9993450418
20	શ્રી કિશોર કુમાર માહેશ્વરી, સચિવ, કૃષિ ઉપજ મણી, ઇટારસી	9893389537

**પંચાયત નિર્વાચન, હોશંગાબાદ
સેક્ટર અધિકારી કી સૂચી**

ક્રમાંક (1)	સેક્ટર ઑફિસર કા નામ બ પદ એવં વર્તમાન પદસ્થાપના કા સ્થાન (2)	મોબાઇલ નંબર (3)
1	શ્રીમતી શશિકલા ગોલાઇચ, સહાયક સંચાલક મત્સ્ય, હોશંગાબાદ	9993943649
2	શ્રી વ્હી. કે. જૈન, વરષી જિલા પંજીયક, જિલા પંજીયક, કાર્યાલય, હોશંગાબાદ	9425367616
3	શ્રી એસ. આર. કોલી, ઉપ સંચાલક, ખાડી તથા ગ્રામોદ્યોગ, હોશંગાબાદ	7869601419
4	શ્રીમતી સુચિતા તિર્કીં, ઉપ સંચાલક, સમાજિક ન્યાય વિભાગ, હોશંગાબાદ	9893861721
5	શ્રી આર.બી. પટેલ, શ્રમ નિરીક્ષક, સહાયક શ્રમાયુક્ત કાર્યાલય, હોશંગાબાદ	9425044843
6	શ્રીમતી શ્વેતા જાધવ, ઉપ સંચાલક, મહિલા સશક્તિકરણ, હોશંગાબાદ	9977919111
7	શ્રી શૈલેન્ડ્રસિંહ, મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી, જનપદ પંચાયત, હોશંગાબાદ	9424470278
8	શ્રી પી. કે. પાણ્ડે, સહાયક આયુક્ત, આદિવાસી વિકાસ વિભાગ, હોશંગાબાદ	9425469676
9	શ્રી એન. કે. દેશપાણ્ડે, કાર્યપાલન યંત્રી, હાઉસિંગ બોર્ડ, હોશંગાબાદ	9827070164
10	શ્રી એસ. સી. બનાવલ, સહાયક પ્રબંધક, પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક પ્રાધિકરણ, હોશંગાબાદ	9825671120
11	શ્રી એ. કે. વર્મા, શ્રમ નિરીક્ષક, સહાયક શ્રમાયુક્ત કાર્યાલય, હોશંગાબાદ	9425044871
12	શ્રી આર. કે. નેમા, ઉપ મહાપ્રબંધક, મ.પ્ર. ખનિજ નિગમ, હોશંગાબાદ	9406525394
13	શ્રી અશોક મિશ્રા, ઉપ આયુક્ત આઈ.સી.ડી.એસ. હોશંગાબાદ	9425045458
14	શ્રી ડી. કે. હવલદાર, શાખા પ્રબંધક, મ.પ્ર. વેયર હાઉસ કાર્પોરેશન, હોશંગાબાદ	9301190371
15	શ્રી એસ. એસ. ખાન, ઉપ સંચાલક ઉદ્યાન, હોશંગાબાદ	9826974581
16	શ્રી સંજય ત્રિપાઠી, જિલા કાર્યક્રમ અધિકારી મહિલા એવં બાળ વિકાસ વિભાગ, હોશંગાબાદ	9425725653
17	શ્રી ડી. આર. ઇવને, અ.વિ.અ. ગ્રામીણ યાંત્રિકી સેવા, હોશંગાબાદ	8224000494
18	શ્રી એન. કે. વર્મા, કાર્યપાલન યંત્રી, નલકૂપ હોશંગાબાદ	9424792058

**पंचायत निर्वाचन, सोहागपुर
सेक्टर अधिकारी की सूची**

क्रमांक	सेक्टर ऑफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)
1	श्री जी. के. जोशी, उपयंत्री, पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9425301650
2	श्री पी. के. खातरकर, अ.वि.अ.पी.बी.सी., सोहागपुर	9827751924
3	श्री आर. के. अवस्थी, उपयंत्री, पी.बी.सी., सोहागपुर	9425301650
4	श्री आर. के. वर्मा, उपयंत्री, पी.बी.सी., सोहागपुर	9425301650
5	श्री के. पी. कोरी, अ.वि.अ. पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9424629412
6	श्री सुरेशकुमार पठारिया बनपाल, बन परिक्षेत्र कार्यालय, सोहागपुर	8435901840
7	श्री आर. जी. चौबे, उपयंत्री, नगर परिषद्, सोहागपुर	9826875518
8	सुश्री आरतीसिंह अ.वि.अ. पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9589395904
9	श्री यू. एस. ठाकुर, उपयंत्री, नगर परिषद्, सोहागपुर	9826875518
10	श्री सतीश गोस्वामी, उपयंत्री, पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9826286520
11	श्री प्रशांत डेहरिया, उपयंत्री जनपद पंचायत, सोहागपुर	9407031616
12	श्री जी.एस. बल, उपयंत्री, पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9826418098
13	श्री मोनी जान, उपयंत्री पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9406525965
14	श्री एन. एस. सिलावट, उपयंत्री, पी.बी.सी. संभाग, सोहागपुर	9977202953
15	श्री ए.के. पवार, अ.वि.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सोहागपुर	9977304258
16	श्री पी.बी. शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर	9098088119
17	श्री इन्द्रसिंह धाकड, बनपाल बनपरिक्षेत्र कार्यालय, सोहागपुर	8435901840
18	श्री सुदेश बाघमरे, उप बन मंडलाधिकारी, सोहागपुर	9424792045
19	श्री आर. के. मोदी, सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत, सोहागपुर	9827394569
20	श्री महेश अहिरवार, उपयंत्री, जनपद पंचायत, सोहागपुर	7869841994
21	श्री डी.एस. राजपूत, उपयंत्री, नगर परिषद्, सोहागपुर	9826317710
22	श्री राजेन्द्र कुमार गजभिये, अ.वि.अ. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, सोहागपुर	9424453767

**पंचायत निर्वाचन, पिपरिया
सेक्टर अधिकारी की सूची**

क्रमांक	सेक्टर ऑफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)
1	श्री गयाप्रसाद पटले, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग, पिपरिया	9425161420
2	श्री जी. पी. साकेत, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पिपरिया	9406945312
3	श्री एस. के. प्रजापति, फौल्ड ऑफिसर, रेशम केन्द्र, पिपरिया	9424414485
4	श्री एम. एल. मालवीय, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, पिपरिया	9827437870
5	श्री राजमणी पांडे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पिपरिया	9826080797

(1)	(2)	(3)
6	श्री जी. आर. मवई, सहायक संचालक उद्यान सिलारी फार्म	9525429240
7	श्री राजेन्द्र गहरवार, सहायक यंत्री, मनरेगा, पिपरिया	9425473148
8	श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्री उपखण्ड, पिपरिया	94244448260
9	श्री पी. एल. जैन, सहा. पशु शल्य चिकित्सक, पिपरिया	9424469674
10	श्री ए. के. पाटिल, सहा. यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पिपरिया	9424521454
11	श्री अशोक मिश्रा, उद्यान अधीक्षक, पचमढ़ी	9425367447
12	श्री संजय सराठे, सहा. शल्य चिकित्सक, पचमढ़ी	9479581848
13	श्री आर. एस. शर्मा, उद्यान अधीक्षक मटकुली	9424300572
14	श्री एल. एन. शुक्ला, डिप्टी रेन्जर, मटकुली	9424792096
15	श्री एस.डी. कस्तूरे फील्ड आफिसर, रेशम केन्द्र, पिपरिया	9424469661
16	श्री व्ही. एस. यादव, अनुविभागीय अधि. वन पचमढ़ी	9424792103
17	श्री एल. एन. आरसे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पचमढ़ी	9424792107
18	श्री रामअभिलाष साकेत, सहायक संचालक, उद्यान, पचमढ़ी	9406944553
19	श्री के.जी. माहेश्वरी, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पचमढ़ी	9425125851
20	श्री पी. के. पाठक, क्षेत्र अधिकारी, रेशम, पचमढ़ी	9425075990
21	श्री एस.सी. रैकवार, एस.डी.ओ., लो.नि.वि., पचमढ़ी	9713551577
22	श्री सरनामसिंह, सहायक संचालक, कृषि, होशंगाबाद	9826498033

पंचायत निर्वाचन, बनखेड़ी
सेक्टर अधिकारी की सूची

क्रमांक (1)	सेक्टर ऑफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नंबर (3)
1	श्री जी. एस. धाकड़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बनखेड़ी	9424063048
2	श्री लालजीसिंह, सहायक यंत्री मनरेगा, जनपद पंचायत, बनखेड़ी	8518931251
3	श्री संजीव नीलकंठ, उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र, बनखेड़ी	9589427939
4	श्री शिवशंकर पगारे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बनखेड़ी	9893331044
5	श्री ए. के. कुरेशिया, उपयंत्री, जनपद पंचायत, बनखेड़ी	9826353713
6	श्री संदीप दुबे, उपयंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी उपखण्ड, पिपरिया	9893798030
7	श्री एस. के. विहारे, उपयंत्री, जनपद पंचायत, बनखेड़ी	9993533718
8	श्री ए. एस. पटेल, उपयंत्री, लोक नि.वि., उपसंभाग, पिपरिया	9425467203
9	श्री एस. एन. श्रीवास्तव, वन परिक्षेत्राधिकारी, बनखेड़ी	9425792062
10	श्री चेरियन मेथ्यूज, उपयंत्री, लो.नि.वि., उपसंभाग, पिपरिया	9406542405
11	श्री ए. एस. खान, बी.ई.ओ., पशु चिकित्सा, बनखेड़ी	9827095909
12	श्री बी.डी. पासी, प्राचार्य, कन्या उ.मा. विद्यालय, बनखेड़ी	9893088662

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत निर्वाचन), होशंगाबाद.